

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 01-07-2021

"माह जून" में विशेष अभियान चलाकर सहारनपुर पुलिस ने अपराधियों की तोड़ी कमर, विभिन्न अपराधों में संलिप्त रहे 403

अपराधियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद के समस्त पुलिस अधिकारियों को अवैध शराब, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, हत्या, लूट, चोरी आदि अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर उनकी धरपकड़ करने हेतु दिशा-निर्देश दिये गये थे। जिसके क्रम में जनपद पुलिस द्वारा माह जून में विभिन्न अपराधों में संलिप्त रहे कुल 403 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जिनमें अवैध शराब/कच्ची शराब बनाने वाले कुल 88 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से 490 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण/भट्टी, 169 अवैध देशी/अंग्रेजी शराब की बोतल व 935 पक्के/अध्धे देशी/अंग्रेजी शराब बरामद की गई हैं।

इसके अतिरिक्त हत्या की 02 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुये घटना में शामिल रहे 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा लूट की 03 घटनाओं का अनावरण करते हुये 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से लूट का सामान बरामद किया गया।

इसके साथ-साथ चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 41 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया गया। गोकशी के अपराध में 07 अभियोग पंजीकृत करते हुये 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा 04 ईनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में जनपद को नशा मुक्त करने के उद्देश्य से "नशा मुक्ति अभियान" चलाया गया और जनपदवासियों को नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई तथा 30 दिनों में नशे का कारोबार करने वाले कुल 142 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 16 किलो 387 ग्राम चरस, 53 किलो 360 ग्राम डोडा पोस्त चूर्ण, 01 किलो 555 ग्राम स्मैक, 67 किलो गांजा, 02 किलो 500 ग्राम अफीम व 3935 नशीली गोलियां बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई।

इसके अलावा आर्म्स एक्ट के तहत कुल 75 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से 12 अवैध तमंचे व 57 नाजायज चाकू बरामद किये गये। जुआ/सट्टे पर अंकुश लगाने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से भारी मात्रा में नगदी, ताश के पत्ते व सट्टे की पर्चिया बरामद की गई।

इसी क्रम में 02 घटनाओं में पुलिस व बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 04 बदमाशों को घायल करते हुये उनके अन्य 04 साथियों को भी गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई। इस प्रकार जनपद पुलिस द्वारा माह जून में विभिन्न अपराधों में संलिप्त रहे कुल 403 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के आदेशों के क्रम में उक्त अभियान को आगे भी जारी रखते हुये अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी सुनिश्चित की जायेगी।

प्रेस नोट दिनांक 01-07-2021

कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा तहसीलदार सदर के नेतृत्व में अभियुक्त 1-नदीम 2-आलम पुत्रगण फैजान की अपराधिक गिरोह बन्द के रूप में अपराधिक क्रिया कलापो के द्वारा अर्जित अवैध सम्पत्ति उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अन्तर्गत अनुमानित करीब 20 लाख रूपये की अवैध चल/अचल सम्पत्ति की गई कुर्क:-

अवगत कराना है कि थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 447/ 2019 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त गण 1-नदीम व 2-आलम पुत्रगण फैजान निवासी ग्राम सिम्भालका जुनारदार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर के द्वारा निरन्तर आर्थिक लाभ हेतु गिरोहबन्द के रूप में आपराधिक क्रियाकलापों के माध्यम से अवैध धन अर्जित किया गया है। जिससे उक्त अभियुक्तगण द्वारा अवैध रूप से चल/अचल सम्पत्ति क्रय की गयी है। उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों की विवेचना से पाया गया कि अभियुक्तगण नदीम व आलम पुत्रगण फैजान निवासी ग्राम सिम्भालका जुनारदार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर एक शातिर किस्म के अपराधी है जिनके द्वारा वाहन चोरी जैसे जघन्य अपराध कर अवैध लाभ अर्जित किये गये है। जिनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अन्तर्गत माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर में कार्यवाही सम्पादित कराकर माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर के आदेशों के अनुपालन में अभियुक्तगणों की अनुमानित करीब 20 लाख रूपये की अर्जित अवैध चल/अचल सम्पत्ति को आज दिनांक 01.07.2021 को थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा तहसीलदार सदर के नेतृत्व में कुर्क की गई है।

अभियुक्तों का नाम व पता:-

- नदीम पुत्र फैजान निवासी ग्राम सिम्भालका जुनारदार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
- आलम पुत्र फैजान निवासी ग्राम सिम्भालका जुनारदार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।

कुर्क की गई चल/अचल सम्पत्ति का विवरण:-

❖ दो अलमारी लोहा	❖ दो कमरे नये
❖ एक फ्रिज	❖ एक बाथरूम पक्का
❖ एक सोफा	❖ बाऊडरी वाल पक्की
❖ एक कुलर	❖ लोहे का गेट
❖ एक डबल बैड	❖ एक नल
❖ दो वाशिंग मशीन	❖ एक साईकिल
❖ गैस मय सिलेन्डर	❖ पानी की टंकी
❖ चार चारपाई	❖ एक तख्त
❖ दो पखें छत	❖ एक ड्रेसिंग
❖ एक पंखा तुफान	❖ एक सन्दूक
	❖ मोबाईल सोनी रिएक्सन



प्रेस नोट दि० 01.07.2021

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर द्वारा अवैध शस्त्र सम्बन्धित चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय सर्किल नकुड जिला सहारनपुर के नेतृत्व में संदिग्ध व्यक्ति अवैध शस्त्र सम्बन्धित चेकिंग अभियान हेतु श्रीमान प्रभारी निरीक्षक श्री जसवीर सिंह द्वारा टीम गठित की गयी तथा चेकिंग के द्वारा दिनांक 01.07.2021 को समय 09.50 बजे चेकिंग के दौरान थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा नाई नगली माजरी मोड से दो अभि० 1.अक्षय पुत्र प्रीतम निवासी ग्राम उमरपुर थाना रामपुर मनिहारान को मय एक अदद तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कार० के व 2.आसरीन पुत्र जमशेद निवासी ग्राम चर्रोह थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर को मय एक अदद छूरी के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०स० 208/2021 धारा 3/25 आयुध अधि० बनाम अक्षय उपरोक्त व मु०अ०स० 209/2021 धारा 4/25 आयुध अधि० बनाम आसरीन उपरोक्त पजीकृत किया गया । **अभि० अक्षय उपरोक्त थाना हाजा का टांप टैन अपराधी व HS भी है जिसका HS NO 98/A है तथा अभि० आसरीन थाना हाजा का HS है जिसका HS नम्बर 139/A है ।**

गिरफ्तार अभियुक्त गण के नाम व पता –

1. अक्षय पुत्र प्रीतम निवासी ग्राम उमरपुर थाना रामपुर मनिहारान थाना रामपुर मनि०
2. आसरीन पुत्र जमशेद निवासी ग्राम चर्रोह थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

1. अभि० अक्षय उपरोक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कार० बरामद हुई
2. अभि० आसरीन के कब्जे से एक अदद छूरी बरामद हुई

पुलिस पार्टी –

1. उ०नि० श्री सहन्सरपाल सिंह थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० श्री हेका० 529 अमित तोमर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
3. हका० 1276 दीपक नागर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर



प्रेस नोट दि० 01.07.2021

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर द्वारा नशा सम्बन्धित चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय सर्किल नकुड जिला सहारनपुर के नेतृत्व में संदिग्ध नशा सम्बन्धित चेकिंग अभियान हेतु श्रीमान प्रभारी निरीक्षक श्री जसवीर सिंह द्वारा टीम गठित की गयी तथा चेकिंग के द्वारा दिनांक 01.07.2021 को समय 09.30 बजे चेकिंग के दौरान थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा दो अभि० 1.सुनील पुत्र मनोज निवासी दुधली थाना झिंझाना जिला शामली को मय 190 ग्राम चरस व 2.कर्ण पुत्र महावीर निवासी ग्राम अहमदगढ थाना झिंझाना जिला शामली को मय 200 ग्राम चरस मय कांटे के नानौता चुंगी कस्बा रामपुर मनि० से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु०अ०स० 206/21 धारा 8/20 NDPS ACT बनाम सुनील व मु०अ०स० 207/21 धारा 8/20 NDPS ACT बनाम कर्ण पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त गण के नाम व पता –

- 1.सुनील पुत्र मनोज निवासी दुधली थाना झिंझाना जिला शामली
- 2.कर्ण पुत्र महावीर निवासी ग्राम अहमदगढ थाना झिंझाना जिला शामली

बरामदगी का विवरण –

- 1.सुनील पुत्र मनोज निवासी ग्राम दुधली थाना झिंझाना जिला शामली के कब्जे से 190 ग्राम चरस
- 2.कर्ण पुत्र महावीर निवासी ग्राम अहमदगढ थाना झिंझाना जिला शामली के कब्जे से 200 ग्राम चरस

पुलिस पार्टी –

4. उ०नि० श्री बिजेन्द्र सिंह रावल थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
5. उ०नि० श्री आदेश पांचाल थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
6. का० 1688 सचिन कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
7. का० 1301 विक्रान्त मान थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

प्रेस नोट दिनांक 01-07-2021

थाना गंगोह पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 30-06-2021 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा ग्राम कुतुबखेडी थाना गंगोह से अभि० बालेश पुत्र पाल्ला निवासी ग्राम कुतुबखेडी थाना गंगोह, सहारनपुर को 20 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु०अ०सं० 309/21 धारा 60(2) आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना बेहट पुलिस द्वारा नाजायज स्मैक सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 30-06-2021 को थाना बेहट पुलिस द्वारा उसण्ड तिराहा थाना बेहट से अभि० 1-मुददसिर पुत्र जियाउलहक व 2-मोनू पुत्र माथुराम निवासी ताजपुरा थाना बेहट, सहारनपुर को 20 ग्राम नाजायज स्मैक सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु०अ०सं० 318,319/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना बेहट पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 30-06-2021 को थाना बेहट पुलिस द्वारा नानौली पुल थाना बेहट से अभि० नदीम पुत्र हबीब हसन निवासी नानौली थाना बेहट, सहारनपुर को 06 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु०अ०सं० 320/21 धारा 60/63 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

मीडिया/सोशल मीडिया सेल
सहारनपुर।